

विद्या भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

वर्ग-अष्टम

विषय -हिन्दी (व्याकरण)

पठन एवं लेखन सामग्री

पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun)

पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं- उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष।

- **उत्तम पुरुष** मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको (इसके अंतर्गत लेखक या वक्ता आता है)।
- **मध्यम पुरुष** तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको
- **अन्य पुरुष** वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको

निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative Pronoun)

निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, उन्हें **निश्चयवाचक सर्वनाम** कहते हैं।

जैसे- यह, वह, ये, वे।

- यह मेरी पुस्तक है।

- यह कार मनोज की है।
- ये कपड़े रेखा के हैं।
- वह उनकी मेज है।
- ये मेरे हथियार हैं।
- वे तुम्हारे आदमी हैं।
- वह वहाँ खेल रहा है।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronoun)

जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें **अनिश्चयवाचक सर्वनाम** कहते हैं।

जैसे- कोई, कुछ।

- कोई आ गया तो क्या करोगे?
- कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष है।
- द्वार पर कोई खड़ा है।
- उसने कुछ नहीं लिया।
- कोई गा रहा है।
- कमरे में कुछ पड़ा है।

कभी-कभी कुछ 'शब्द-समूह' भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

जैसे- 1. कुछ न कुछ, 2. कोई न कोई, 3. सब कुछ, 4. हर कोई, 5. कुछ भी, 6. कुछ-कुछ आदि।

संबंधवाचक सर्वनाम (Relative Pronoun)

जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाय, उसे **संबंधवाचक सर्वनाम** कहते हैं।

जैसे- जो, सो, जैसा-वैसा, उसकी, जिसकी।

- जो आया है, सो जायेगा यह ध्रुव सत्य है।
- जो करेगा से भरेगा।
- जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा।
- जो सोएगा, सो खोएगा, जो जागेगा, सो पावेगा।
- "जैसा करोगे वैसा भरोगे।"
- जिसकी लाठी उसकी भैंस।

इन वाक्यों में जो, सो, जिसकी, उसकी आदि सम्बन्ध को प्रकट करने वाले हैं अतः ये सभी **सम्बन्धवाचक सर्वनाम** हैं।

प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Pronoun)

प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को **प्रश्नवाचक सर्वनाम** कहा जाता है।

जैसे- कौन, क्या, किसकी।

- कौन आया था?
- वह क्या कह रहा था?
- कानपुर से क्या लाना है?
- बाहर कौन गया है?
- दूध में क्या गिर पड़ा?
- विद्यालय में कौन जा रहा है?
- यह कलम किसकी है?

इन वाक्यों में 'कौन', 'क्या' तथा 'किसकी' कहकर 'व्यक्ति' तथा 'कलम' के बारे में प्रश्न किए गए हैं अतः ये **प्रश्नवाचक सर्वनाम** हैं।

निजवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronoun)

निजवाचक सर्वनाम हैं- अपने आप। यह 'अपने आप', स्वतः, 'स्वयं' या 'खुद' के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे- यह कार्य मैं 'अपने आप' ही कर लूंगा।

ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त 'अपने आप' स्वयं के लिए प्रयुक्त है जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदरसूचक सर्वनाम 'अपने आप' से अलग है।